



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 02.06.2022

हत्या के प्रयास का आरोपी अवैध तमंचा मय कारतूस के गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी को एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 31.05.2022 की शाम लगभग 08.00 बजे जब श्री प्रमोद पुत्र गयारी पासी नि0 अटवा वैक थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव पूर्व प्रधान लल्लू के घर से अपने घर जा रहा था, तभी बनियन चौराहा, अटवा वैक पर बृजपाल वर्मा पुत्र शिवलाल वर्मा नि0 अटवा थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव मिला और पुरानी रंजिश के आधार पर गाली गलौज करने लगा एवं अपने घर से अवैध तमंचा लेकर आया और वादी मुकदमा पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिसमें वादी मुकदमा बाल- बाल बच गया । वादी की तहरीरी सूचना पर दिनांक 01.06.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/2022 धारा 307/504 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 02.06.2022 को अभियुक्त बृजपाल वर्मा पुत्र शिवलाल वर्मा नि0 अटवा थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव को मय घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिंदा व एक अदद खोखा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचे की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बृजपाल वर्मा पुत्र शिवलाल वर्मा नि0 अटवा थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव

बरामदगी- एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिंदा व एक अदद खोखा कारतूस

थाना बेहटा मुजावर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रामखेलावन शुक्ला
2. हे0का0 विनोद कुमार
3. हे0का0 चन्द्र प्रकाश तिवारी
4. हे0का0 अमर सिंह



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना मौरावां, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 02.06.2022

40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 02.06.2022 को उ0नि0 श्री विष्णुदत्त मय हमराह फोर्स द्वारा सुरेश पुत्र राम बहादुर नि0 ग्राम दृगपाल गंज थाना मौरावां जनपद उन्नाव को कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर प्रसाद खेड़ा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मौरावां पर मु0अ0सं0 241/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता -

1. सुरेश पुत्र राम बहादुर निवासी ग्राम दृगपालगंज मजरा असरेन्दा थाना मौरावां, उन्नाव

बरामदगी- एक प्लास्टिक के थैले में 2-2 ली0 20 पाउच कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री विष्णुदत्त
2. कां0 रोहन